

**APIS INDIA LIMITED**

18/32, East Patel Nagar, New Delhi 110 008 India
T +91 11 4320 6650 F +91 11 2571 3631
E mail@apisindia.com W apisindia.com

AIL/CS/2023-24/323**July 15, 2023**

To,
The Manager,
Listing Department
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai- 400001

Scrip Code: 506166

Subject: Newspaper advertisement -Notice of Postal Ballot under Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sir/Madam,

With reference to our letter dated 14th July, 2023 to notice of Postal Ballot of the Company and in compliance with Regulations 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copies of the Newspaper advertisement published today i.e. 15th July, 2023, in Financial Express, in English edition and Jansatta, in Hindi edition, confirming dispatch of notice of Postal Ballot and providing other information, pursuant to the provisions of Section 108 and Section 110 of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder.

The above information is also available on the website of the Company at www.apisindia.com.

You are requested to take the same on your records.

Thanking you

**Yours sincerely,
For Apis India Limited**

**Authorised Signatory
Encl: As Above**

Delhi excise case: SC seeks response of ED, CBI on Sisodia's interim bail pleas

EXPRESS NEWS SERVICE
New Delhi, July 14

THE SUPREME COURT

Friday issued notice to the CBI and ED on Delhi Deputy chief minister Manish Sisodia's plea seeking bail in the cases registered against him in connection with the excise policy case. A bench of Justices Sanjeev Khanna, Bela M Trivedi and Ujjal

Bhuyan, which issued the notice, also fixed July 28 to hear his plea for interim bail to meet his wife who is suffering from illness.

During the hearing, Justice Khanna said he is aware of the health condition, which senior advocate AM Singhvi who appeared for Sisodia was referring to. "It is a progressive disease... I know about it," said Justice Khanna. Sisodia, who has

been booked in cases registered by the CBI as well as the ED, was denied bail by the Delhi High Court in the ED case on July 3. He was arrested on February 26, 2023, and has been in custody for more than four months now.

In his bail plea, the AAP leader contended that there is no documentary evidence that any of the alleged bribes were paid or received by him.

KEY POSTS FOR 9 NCP MINISTERS

Maharashtra cabinet rejig: Ajit Pawar gets finance portfolio



Maharashtra deputy chief minister Ajit Pawar clinched key portfolios for his party on Friday. FILE PHOTO

The breakaway NCP group got Medical and Education to name a few

ALOK DESHPANDE
Mumbai, July 14

NEARLY TWO WEEKS after he and eight other NCP MLAs joined the BJP-Sena government in Maharashtra, Deputy Chief Minister Ajit Pawar clinched key portfolios for his party, including the Finance and Planning department for himself, on Friday. The Finance and Planning portfolio was earlier held by Deputy Chief Minister and BJP leader Devendra Fadnavis.

The breakaway NCP group has also got Cooperation (Dilip Walse-Patil), Agriculture (Dhananjay Munde), Medical Education (Hasan Mushrif), Food and Civil Supplies (Chhagan Bhubhal), Women and Child Development (Aditi Tatkar), Relief and Rehabilitation (Anil Patil), Food and Drug Administration (Dharmarababa Atram), and Sports and Youth Welfare as well as Ports (Sanjay Bansode). Five of these departments were earlier with the BJP: Medical Education and Sports and Youth Welfare were both with Girish Mahajan, Cooperation was with Atul Save, Women and Child Development with Mangal Prab-

hat Lodha, and Food and Civil Supplies with Ravindra Chavan.

Mahajan and Save have been given Tourism and Housing respectively, which were additionally held by Lodha and Fadnavis.

While Chief Minister Eknath Shinde held the Relief and Rehabilitation portfolio earlier, the other departments which were with the Sena are: Food and Drug Administration (Sanjay Rathod), Agriculture (Abdul Sattar), and Ports (Dada Bhuse).

Rathod now has the Soil and Water Conservation department, Sattar will be in charge of the Minority as well as Marketing departments, and Bhuse will be in charge of the Maharashtra State Road Development Corporation. All these portfolios were with Shinde earlier.

The redistribution of portfolios shows that the breakaway NCP group has managed to retain the upper hand in negotiations, clinching key portfolios linked to the party's rural voter base.

While the Finance and Planning portfolio ensures control over finances of all departments, including sanctioning additional funds to areas where its leaders hold sway, with a senior leader like Walse-Patil in charge of cooperation, the party is likely to regain its control over the cooperative sector, including sugar factories, cooperative banks and financial institutions.

MOTILAL OSWAL
Mutual Fund

Motilal Oswal Asset Management Company Limited
Registered & Corporate Office: 10th Floor, Motilal Oswal Tower, Rahimtullah Sayani Road, Opposite Parel ST Depot, Prabhadevi, Mumbai - 400 025
• Toll Free No.: +91 8108622222, +91 22 40548002 • Email: amc@motilaloswal.com
• CIN No.: U67120MH2008PLC188186 • Website: www.motilaloswalmf.com

NOTICE
DECLARATION OF DISTRIBUTION OF INCOME & CAPITAL UNDER THE SCHEME, MOTILAL OSWAL BALANCED ADVANTAGE FUND (FORMERLY KNOWN AS MOTILAL OSWAL DYNAMIC FUND)

NOTICE is hereby given that Motilal Oswal Trustee Company Limited, Trustee to Motilal Oswal Mutual Fund has approved the declaration of Distribution of Income & Capital under the Quarterly Income Distribution cum Capital Withdrawal (IDCW) option(s) of the Scheme, **Motilal Oswal Balanced Advantage Fund**, an open ended dynamic asset allocation fund, as under:

Name of the Scheme / Plan(s)	Quantum of IDCW (₹ Per Unit)*	NAV as on July 13, 2023 (₹ Per Unit)	Record Date**	Face Value (₹ Per Unit)
Motilal Oswal Balanced Advantage Fund - Direct Plan - Quarterly IDCW Option	0.19	12.4088	July 18, 2023	10.00
Motilal Oswal Balanced Advantage Fund - Regular Plan - Quarterly IDCW Option	0.18	11.9228	July 18, 2023	

* As reduced by the amount of applicable statutory levy, if any.
** Or immediately following Business Day, if that day is not a Business Day.

Pursuant to payment of IDCW, the NAV of the IDCW Option of the above mentioned Plans of the Scheme will fall to the extent of payout and statutory levy (if applicable).

The above IDCW is subject to the availability of distributable surplus and may be lower to the extent of distributable surplus available on the Record Date.

In case the distributable surplus is less than the quantum of IDCW on the record date / ex-IDCW date, the entire available distributable surplus in the scheme / plan will be declared as IDCW.

IDCW will be paid to those Unitholders / Beneficial Owners whose names appear in the Register of Unit holders maintained by the Mutual Fund / statement of beneficial ownership maintained by the Depositories, as applicable, under the IDCW Option of the aforesaid plans of the Scheme as on the record date.

SEBI circular no. SEBI/HO/IMD/DF3/CIR/P/2020/194 dated 5th October, 2020 on review of IDCW option(s) / Plan(s) in case of Mutual Fund Schemes shall be applicable for calculation of distributable surplus.

In view of individual nature of tax consequences, each investor is advised to consult his / her own professional financial / tax advisor.

For Motilal Oswal Asset Management Company Limited (Investment Manager for Motilal Oswal Mutual Fund)

Sd/-
Navin Agarwal
Managing Director & Chief Executive Officer

MUTUAL FUND INVESTMENTS ARE SUBJECT TO MARKET RISKS, READ ALL SCHEME RELATED DOCUMENTS CAREFULLY.

JAGJANANI TEXTILES LIMITED

Registered Office: SCOs 33 and 34, RIICO Shopping Complex, Bagru Ext. I, Jaipur - 303007, Rajasthan, India.
Tel: 0141 - 4104745; Email: jts@jagjnaniltd.com; Website: www.jagjnaniltd.com

RECOMMENDATIONS OF THE COMMITTEE OF INDEPENDENT DIRECTORS ("IDC")

Recommendations of the Committee of Independent Directors ("IDC") of Jagjnanani Textiles Limited ("Target Company" or "TC") on the Open Offer to the Public Shareholders of the Target Company for acquisition of upto **40,56,000 (Forty Lakhs Fifty-Six Thousand)** fully paid-up equity shares of face value of **Rs. 10/- (Rupees Ten Only)** each, representing up to 26.00% (Twenty-Six percentage) of the Voting Capital ("Offer Shares") of Jagjnanani Textiles Limited (the "Target Company") at a cash price of **Rs. 6.50/- (Rupees Six and Fifty Paise only)** per fully paid-up equity share, from the public shareholders of the Target Company ("Offer"/ "Open Offer") by **Mr. Manojbhai J. Patel ("Acquirer I") and Mr. Avanishkumar Manojkumar Patel ("Acquirer II")** (collectively referred to as "Acquirers") along with **Mr. Surendra Shah ("PAC")** under Regulation 26(7) of SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 and subsequent amendments thereto ("SEBI (SAST) Regulations, 2011")

S.N.	Particular	Report
1.	Date	July 14, 2023
2.	Name of the Target Company	Jagjnanani Textiles Limited
3.	Details of the Open Offer pertaining to the TC	The Open Offer is being made by the Acquirers together with the PAC for the acquisition of up to 40,56,000 (Forty Lakhs Fifty-Six Thousand) fully paid-up equity shares of face value of Rs. 10/- (Rupees Ten Only) each, representing up to 26.00% of the Voting Capital ("Offer Shares") at a price of Rs. 6.50/- (Rupees Six and Fifty Paise only) per Equity Share, payable in cash ("Offer Price") of the Target Company, pursuant to and in compliance with Regulation 2(1) and Regulation 4 of the SEBI (SAST) Regulations, 2011 and other applicable regulations of the SEBI (SAST) Regulations.
4.	Name(s) of the Acquirers and PAC	Mr. Manojbhai J. Patel ("Acquirer I") Mr. Avanishkumar Manojkumar Patel ("Acquirer II") Mr. Surendra Shah ("PAC")
5.	Name of the Manager to the offer	Fedex Securities Private Limited
6.	Members of the Committee of Independent Directors	1. Mr. Rajesh Chunilal Shah - Chairman 2. Mr. Shakti Singh Shekhawat - Member 3. Mrs. Kavita Jain - Member
7.	IDC Member's relationship with the TC (Director, Equity shares owned, any other contract/relationship), if any	All IDC Members are Non-Executive Independent Directors of the Target Company. IDC Members do not hold any equity shares of the Target Company. Except as mentioned below, none of the members of the IDC have entered into any contract or have any relationship with the Target Company: 7.1. Mrs. Kavita Jain is the chairperson of the Stakeholders Relationship and Grievance Committee of the Target Company, and is a member of the Nomination and Remuneration Committee of the Target Company; 7.2. Mr. Rajesh Chunilal Shah is the chairperson of Audit Committee and the Nomination and Remuneration Committee and is a member of the Stakeholders Relationship and Grievance Committee of the Target Company, and; 7.3. Mr. Shakti Singh Shekhawat is the member of the Audit Committee and Nomination and Remuneration Committee of the Target Company.
8.	Trading in the Equity shares/ other securities of the TC by IDC Members	None of the IDC members have traded in the Equity Shares of the Target Company during 12 months prior to the date of the Public Announcement of the Offer i.e., April 06, 2023 and during the period from the date of Public announcement till date of this recommendation i.e., July 14, 2023.
9.	IDC Member's relationship with the Acquirers (Director, Equity shares owned, any other contract/relationship), if any	None of the members of the IDC have any contracts/relationships/directorship/holding Equity shares with the Acquirers.
10.	Trading in the Equity shares/ other securities of the Acquirers by IDC Members	Not Applicable.
11.	Recommendation on the Open Offer, as to whether the Offer is fair and reasonable	Based on the review of the Public Announcement, Detailed Public Statement, Corrigendum to the Detailed Public Statement, Draft Letter of Offer, Valuation report dated April 06, 2023 and July 07, 2023 issued by CA Rohit Maloo, Registered Valuer and Letter of Offer issued by the Manager to the Open Offer on behalf of the Acquirers and PAC, the IDC is of the opinion that the Offer is fair and reasonable and offer price of Rs. 6.50/- (Rupees Six and Fifty Paise only) per Equity shares is in accordance with the SEBI (SAST) Regulations, 2011. However, the public shareholders of the Target company are advised to independently evaluate the Open Offer and take informed decision about tendering the Equity shares held by them in the Open Offer.
12.	Summary of reasons for recommendation	IDC has reviewed the Public Announcement dated April 6, 2023, the Detailed Public Statement dated April 15, 2023, Corrigendum to the Detailed Public Statement dated April 21, 2023, Draft Letter of Offer dated April 24, 2023 and Letter of Offer dated July 07, 2023. The IDC had also taken into consideration the Valuation report dated April 06, 2023 and July 07, 2023 issued by CA Rohit Maloo, Registered Valuer (IBBI Registration No.: IBBI/RV/06/2019/11827). Based on the above, the IDC is of the opinion that the Offer Price of Rs. 6.50/- (Rupees Six and Fifty Paise only) is proposed to be payable in cash & there are no competing offers. Further, the Open Offer to the Public Shareholders of the Target Company is in compliance with the requirements of the Regulations and is fair and reasonable. However, Public Shareholders are advised to independently evaluate the Open Offer and take informed decision about tendering the Equity shares held by them in the Open Offer.
13.	Details of Independent Advisor (if any)	None.
14.	Voting pattern (Assent/Dissent)	The recommendations were unanimously approved by the members of IDC
15.	Any other matters to be highlighted	None.

To the best of our knowledge and belief, after making proper enquiry, the information contained in or accompanying this statement is, in all material respect, true and correct and not misleading, whether by omission of any information or otherwise, and includes all the information required to be disclosed by the TC under the SEBI (SAST) Regulations, 2011.

For and on the behalf of Committee of Independent Directors of Jagjnanani Textiles Limited
Sd/-
Mr. Rajesh Chunilal Shah
(Chairman of IDC)

Place: Jaipur
Date: July 14, 2023

APIS INDIA LIMITED
(CIN: L51900DL1983PLC164048)
Regd. Office: 18/32, East Patel Nagar, New Delhi-110008
E-mail: mail@apisindia.com, Website: www.apisindia.com
Phone: 011-4320 6650, Fax: 011-2571 3631

NOTICE OF POSTAL BALLOT

Notice is hereby given to the Members of Apis India Limited (the "Company"), pursuant to Section 108 and Section 110 of the Companies Act, 2013 ("Act") read with Rule 20 and Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (including any statutory modification(s) or re-enactment thereof for the time being in force), and read with relevant Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") (hereinafter collectively referred to as "MCA Circulars") and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Secretarial Standard on General Meeting ("SS-2") issued by the Institute of Company Secretaries of India and other applicable laws, rules and regulations (including any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force and as amended from time to time), that the resolution as mentioned in the Notice of Postal Ballot are proposed for consideration by the Members of the Company for approval by the means of Postal Ballot through Electronic voting (remote e-voting).

In compliance with the MCA Circulars, the Company has completed the dispatch of Postal Ballot Notice dated Thursday, 06th July, 2023 along with Explanatory Statement on Friday, 14th July, 2023 only through electronic means to all those Members whose names appear in the Register of Members/List of Beneficial Owner as maintained by the Company/Depository, respectively, as on Friday, 07th July, 2023 (cut-off date) and whose e-mail addresses are registered with the Company or with the Depository. The Postal Ballot Notice is available on the Company's website at www.apisindia.com and on the website of the stock exchange at www.bseindia.com and also on the website of the CDSL at <https://www.evotingindia.com>. The requirement for sending physical copies of the Postal Ballot Notice and Postal Ballot form has been deferred with vide relevant MCA Circulars.

Members whose names appeared on the Register of Members/List of Beneficial Owner as on the cut-off date are entitled to vote on the resolution as set forth in the Postal Ballot Notice. The Voting rights of the members shall be reckoned in proportion to the paid-up equity share held by them as on the cut-off date. A person who is not a member as on the cut-off date shall treat the Postal Ballot Notice for information purpose only.

In Compliance with MCA Circulars, the Company has provided only e-voting facility to its members, to enable them to cast their votes electronically instead of submitting the physical Postal Ballot form. The communication of the assent and dissent of the members would take place only through the e-voting system. For this purpose, the Company has entered into an agreement with CDSL for facilitating e-voting to enable the members to cast their votes electronically only.

The detail procedure and instructions for e-voting are enumerated in the Postal Ballot Notice. **The e-voting facility period shall commence at 9:00 A.M. (IST) on Saturday, 15th July, 2023 and e-voting facility ends at 5:00 P.M. (IST) on Sunday, 13th August, 2023.** The e-voting will be blocked and voting shall not be allowed beyond said time. The voting done only during the period mentioned above shall be valid for consideration.

The Board of Directors ("Board") of the Company at their meeting held on Thursday, 06th July, 2023 has appointed Mr. Anand Kumar Singh (Membership No. FCS 10812), Practicing Company Secretary as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot through the e-voting process in a fair and transparent manner and he has communicated his willingness to be appointed and will be available for the said purpose. The result of the Postal Ballot will be announced on or before Tuesday, 15th August, 2023 and will also be intimated to the stock exchange at www.bseindia.com and will also be uploaded on the website of the Company at www.apisindia.com and on the website of the CDSL at <https://www.evotingindia.com>.

If you have any queries or issues regarding e-Voting from the CDSL e-Voting System, you can write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no. 1800 22 55 33. All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futrex, Marfatia Mill Compound, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call at toll free no. 1800 22 55 33.

In case of any queries related to postal ballot notice or in case any member whose name appears in the Register of Member/List of beneficial owners as on the cut-off date, has not received Postal Ballot Notice, may write to the company at mail@apisindia.com.

By the order of the Board of Directors
For Apis India Limited
Sd/-
Prem Anand
(Chairperson & Director)
DIN: 00951873

Place: New Delhi
Date: 14th July, 2023

torrent POWER

CIN: L31200GJ2004PLC044068
Website: www.torrentpower.com
Email: cs@torrentpower.com

TORRENT POWER LIMITED
Regd. Office: "Samanvay", 600 Tapovan, Ambawadi, Ahmedabad - 380 015 (Gujarat), India
Phone: +91 79 26628300
Fax: +91 79 26764159

NOTICE OF 19TH ANNUAL GENERAL MEETING ("AGM")

NOTICE is hereby given that 19th AGM of the Members of the Company will be held on **Thursday, August 10, 2023 at 9:30 am IST** through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM"), to transact the businesses as set out in the Notice of AGM, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act"), the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("the Listing Regulations") and the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") Circulars dated May 05, 2020, May 05, 2022 and December 28, 2022 (collectively referred as "the MCA Circulars").

In accordance with the MCA Circulars and SEBI circular dated January 05, 2023, Notice of the AGM alongwith Integrated Annual Report for Financial Year 2022-23, inter-alia, including the remote e-voting instructions, has been e-mailed to the Members whose e-mail addresses are registered with the Company / with the Depository Participants ("DP") on July 14, 2023. The same are also available on the websites of the Company: www.torrentpower.com, the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") at www.evotingindia.com.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Act read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Regulation 44 of the Listing Regulations and MCA Circulars, the Company is providing the e-voting facility through CDSL to the Members holding shares in physical or dematerialized form, as on the **cut-off date i.e. Thursday, August 03, 2023** to exercise their right to vote by using remote e-voting and e-voting during the AGM on any or all of the businesses specified in the Notice of AGM. Detailed instructions for remote e-voting facility and e-voting during the AGM are forming part of the Notice of AGM at Note No. 27 and 28.

The remote e-voting period begins on **Sunday, August 06, 2023 at 9:00 am and shall end on Wednesday, August 09, 2023 at 5:00 pm**. Remote e-voting module shall be disabled by CDSL thereafter. Those Members, who will be present in the AGM through VC / OAVM facility and had not casted their votes on the businesses through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system available during the AGM.

Members who have casted their votes by remote e-voting prior to the AGM may participate in the AGM through VC / OAVM but shall not be entitled to cast their votes again.

Any persons who have acquired shares and become Member of the Company after sending of Notice of AGM electronically and holding shares as on the cut-off date may cast their votes by following the instructions of remote e-voting and e-voting during the AGM as mentioned in the Note No. 27 and 28 of the Notice of AGM.

In case Members have not registered their email address and bank account details with the Company / DP may follow the process detailed below for registration:

Physical Holding	By clicking on the below link, the Member may register his / her email address, mobile number and bank details: https://web.linkintime.co.in/EmailReg/Email_Register.html After clicking the above link, Member has to fill the relevant details in the respective fields and attach self attested copy of PAN, address proof and cancelled cheque leaf.
Demat Holding	By clicking on the below link, the Member may register his/ her email address and mobile number: https://web.linkintime.co.in/EmailReg/Email_Register.html For registration of bank details, the Member may contact their respective DP.

Helpdesk for Individual Members holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. CDSL and NSDL:

Login through	Helpdesk details
CDSL	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 1800 22 55 33.
NSDL	Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at toll free no: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30.

In case of any queries or issued regarding e-voting, Members may refer the Frequently Asked Questions and e-voting user manual available at www.evotingindia.com under help section or write as email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on 1800 22 55 33.

By order of the Board
For Torrent Power Limited
Rahul Shah
Company Secretary

Place : Ahmedabad
Date : July 14, 2023

RECOMMENDATIONS OF THE COMMITTEE OF INDEPENDENT DIRECTORS ("IDC")

Recommendations of the Committee of Independent Directors ("IDC") of Jagjanani Textiles Limited ("Target Company" or "TC") on the Open Offer to the Public Shareholders of the Target Company for acquisition of upto 40,56,000 (Forty Lakhs Fifty-Six Thousand) fully paid-up equity shares of face value of Rs. 10/- (Rupees Ten Only) each, representing up to 26.00% (Twenty-Six percentage) of the Voting Capital ("Offer Shares") of Jagjanani Textiles Limited ("the Target Company") at a cash price of Rs. 6.50/- (Rupees Six and Fifty Paise only) per fully paid-up equity share, from the public shareholders of the Target Company ("Offer" / "Open Offer") by Mr. Manojbhai J. Patel ("Acquirer I") and Mr. Avanishkumar Manojkumar Patel ("Acquirer II") (collectively referred to as "Acquirers") along with Mr. Surendra Shah ("PAC") under Regulation 26(7) of SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 and subsequent amendments thereto ("SEBI (SAST) Regulations, 2011")

S.N. Particular	Report
1. Date	July 14, 2023
2. Name of the Target Company	Jagjanani Textiles Limited
3. Details of the Open Offer pertaining to the TC	The Open Offer is being made by the Acquirers together with the PAC for the acquisition of up to 40,56,000 (Forty Lakhs Fifty-Six Thousand) fully paid-up equity shares of face value of Rs. 10/- (Rupees Ten Only) each, representing up to 26.00% of the Voting Capital ("Offer Shares") at a price of Rs. 6.50/- (Rupees Six and Fifty Paise only) per Equity Share, payable in cash ("Offer Price") of the Target Company, pursuant to and in compliance with Regulation 3(1) and Regulation 4 of the SEBI (SAST) Regulations, 2011 and other applicable regulations of the SEBI (SAST) Regulations.
4. Name(s) of the Acquirers and PAC	Mr. Manojbhai J. Patel ("Acquirer I") Mr. Avanishkumar Manojkumar Patel ("Acquirer II") Mr. Surendra Shah ("PAC")
5. Name of the Manager to the offer	Fedex Securities Private Limited
6. Members of the Committee of Independent Directors	1. Mr. Rajesh Chuniyal Shah - Chairman 2. Mr. Shakti Singh Shekhawat - Member 3. Mrs. Kavita Jain - Member
7. IDC Member's relationship with the TC (Director, Equity shares owned, any other contract/relationship), if any	All IDC Members are Non-Executive Independent Directors of the Target Company. IDC Members do not hold any equity shares of the Target Company. Except as mentioned below, none of the members of the IDC have entered into any contract or have any relationship with the Target Company: 7.1. Mrs. Kavita Jain is the chairperson of the Stakeholders Relationship and Grievance Committee of the Target Company, and is a member of the Nomination and Remuneration Committee of the Target Company; 7.2. Mr. Rajesh Chuniyal Shah is the chairperson of Audit Committee and the Nomination and Remuneration Committee and is a member of the Stakeholders Relationship and Grievance Committee of the Target Company; and 7.3. Mr. Shakti Singh Shekhawat is the member of the Audit Committee and Nomination and Remuneration Committee of the Target Company.
8. Trading in the Equity shares/other securities of the TC by IDC Members	None of the IDC members have traded in the Equity Shares of the Target Company during 12 months prior to the date of the Public Announcement of the Offer i.e., April 06, 2023 and during the period from the date of Public announcement till date of this recommendation i.e., July 14, 2023.
9. IDC Member's relationship with the Acquirers (Director, Equity shares owned, any other contract/relationship), if any	None of the members of the IDC have any contracts/relationships/directorship/holding Equity shares with the Acquirers.
10. Trading in the Equity shares/other securities of the Acquirers by IDC Members	Not Applicable.
11. Recommendation on the Open Offer, as to whether the Offer is fair and reasonable	Based on the review of the Public Announcement, Detailed Public Statement, Corrigendum to the Detailed Public Statement, Draft Letter of Offer, Valuation report dated April 06, 2023 and July 07, 2023 issued by CA Rohit Maloo, Registered Valuer and Letter of Offer issued by the Manager to the Open Offer on behalf of the Acquirers and PAC, the IDC is of the opinion that the Offer is fair and reasonable and offer price of Rs. 6.50/- (Rupees Six and Fifty Paise only) per Equity shares is in accordance with the SEBI (SAST) Regulations, 2011. However, the public shareholders of the Target company are advised to independently evaluate the Open Offer and take informed decision about tendering the Equity shares held by them in the Open Offer.
12. Summary of reasons for recommendation	IDC has reviewed the Public Announcement dated April 6, 2023, the Detailed Public Statement dated April 15, 2023, Corrigendum to the Detailed Public Statement dated April 21, 2023, Draft Letter of Offer dated April 24, 2023 and Letter of Offer dated July 07, 2023. The IDC has also taken into consideration the Valuation report dated April 06, 2023 and July 07, 2023 issued by CA Rohit Maloo, Registered Valuer (IBBI Registration No.: IBBI/RV/06/2019/11827). Based on the above, the IDC is of the opinion that the Offer Price of Rs. 6.50/- (Rupees Six and Fifty Paise only) is proposed to be payable in cash & there are no competing offers. Further, the Open Offer to the Public Shareholders of the Target Company is in compliance with the requirements of the Regulations and is fair and reasonable. However, Public Shareholders are advised to independently evaluate the Open Offer and take informed decision about tendering the Equity shares held by them in the Open Offer.
13. Details of Independent Advisor (if any)	None.
14. Voting pattern (Assent/Dissent)	The recommendations were unanimously approved by the members of IDC
15. Any other matters to be highlighted	None.

To the best of our knowledge and belief, after making proper enquiry, the information contained in or accompanying this statement is, in all material respect, true and correct and not misleading, whether by omission of any information or otherwise, and includes all the information required to be disclosed by the TC under the SEBI (SAST) Regulations, 2011.

For and on the behalf of Committee of Independent Directors of Jagjanani Textiles Limited
Sd/-
Mr. Rajesh Chuniyal Shah
(Chairman of IDC)

Place: Jaipur
Date: July 14, 2023

केनरा बैंक Canara Bank
A Government of India Undertaking
A Government of India Undertaking

कच्चा सूचना धारा 13(4) (अचल/चल सम्पत्ति के लिए)

जबकि, अधोस्तारकर्ता ने केनरा बैंक, खान मार्केट शाखा, नई दिल्ली के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का अधि. 54) (इसमें इसके उपरान्त "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रवर्तन शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, एक मांग सूचना दिनांकित 24-03-2023 निर्गत की थी, जिसमें ऋणकर्ता: मैसर्स श्री बालाजी एटरप्राइजेज (स्वामी श्री दीपांशु गौड़) तथा श्रीमती सुमित्रा शर्मा पत्नी श्री दिनेश दत्त शर्मा (गारंटर-सह-बंधककर्ता), को सूचना में अंकित राशि रु. 64,66,781.19/- (रुपये चौंसठ लाख छियासठ हजार सात सौ इक्यासी तथा उन्नीस पैसे मात्र) का, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवस के अंदर, प्रतिभूतगान करने को कहा गया था।

चूंकि ऋणकर्ता निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभूतगान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्वारा ऋणकर्ता को तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोस्तारकर्ता ने, यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का, उक्त नियमावली के नियम 8 व 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत उक्त प्रवर्तन शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, 11 जुलाई 2023 को, अधिग्रहण कर लिया है।

ऋणकर्ता को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन-देन न करें तथा संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन-देन, 24-03-2023 के अनुसार, रु. 64,66,781.19/- (रुपये चौंसठ लाख छियासठ हजार सात सौ इक्यासी तथा उन्नीस पैसे मात्र) की एक राशि और राशि पर नियत व्याज हेतु केनरा बैंक, खान मार्केट शाखा, नई दिल्ली के प्रभारधीन होगा।

उधारकर्ता का ध्यान, प्रतिभूत परिसंपत्तियों के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13(6) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

चल/अचल संपत्ति का विवरण

क्र.सं.	अचल सम्पत्ति	टाइटल धारक का नाम
1.	मकान नंबर 2592-ए (पुराना प्लॉट नंबर 57 एवं 58) माप 64 वर्ग गज, खसरा नंबर 29/1/3 (3-1), 9/2/2 (3-0) के हिस्से को संस्थापित करनेवाला, जो लखानी चौक के पास, संजय कॉलोनी, सेक्टर-23, मौजा गौची, तहसील बल्लभगढ़, जनपद फरीदाबाद, हरियाणा-121001 में स्थित है। और निम्नानुसार परिवर्द्ध है :- सीमारे: उत्तर : 20' चौड़ी सड़क, दक्षिण : अन्य की संपत्ति पूर्व : प्लॉट नं. 56, पश्चिम : प्लॉट नं. 59	श्रीमती सुमित्रा शर्मा पत्नी श्री दिनेश दत्त शर्मा

दिनांक: 11.07.2023 स्थान: फरीदाबाद प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक

क्र.सं.	चल सम्पत्ति	टाइटल धारक का नाम
1.	प्लॉट नंबर 2592-ए, संजय कॉलोनी, सेक्टर - 23, मौजा - गौची, तहसील - बल्लभगढ़, जनपद - फरीदाबाद, हरियाणा - 121001 या उधारकर्ता कंपनी से संबंधित किसी अन्य परिसर में दृष्टिबंधककृत स्टॉक्स एवं बही ऋण।	मैसर्स श्री बालाजी एटरप्राइजेज
2.	प्लॉट नं. - 2592-ए, संजय कॉलोनी, सेक्टर - 23, मौजा - गौची, तहसील - बल्लभगढ़, जनपद - फरीदाबाद, हरियाणा - 121001 या उधारकर्ता कंपनी से संबंधित किसी अन्य परिसर पर पड़ी हुयी / संस्थापित दृष्टिबंधककृत मशीनरी।	मैसर्स श्री बालाजी एटरप्राइजेज

दिनांक: 11.07.2023 स्थान: फरीदाबाद प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्व का कैपिटल फर्स्ट होम फाइनेंस लिमिटेड तथा कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड)
सीआइएन : L65110TN2014PLC097792
पंजीकृत कार्यालय : केआरएम टॉवर, 8वीं मंजिल, हैरिगन रोड, सेक्टर-6, चैनई-600031, दूरभाष : +91 44 4564 4000 | फैक्स : +91 44 4564 4022.
अधिकृत प्राधिकार: कार्तिक आहुजा, सम्पर्क नम्बर : 7455846882, ई-मेल : kartik.ahuja@idfcbank.com

परिशिष्ट-IV-A
[नियम 8(6) के प्रावधान देखें]
अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु विक्रय सूचना

प्रतिभूत हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण के तहत अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना।

एतद्वारा सामान्य रूप से जनाता को तथा विशेष रूप से कॉलम (iv) के अनुसार कर्जदार(रों) एवं सह-कर्जदार(रों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत लेनदार के पास निरवीकृत/प्रभारित कॉलम (v) के अनुसार नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जिस पर पूर्व के कैपिटल फर्स्ट होम फाइनेंस लिमिटेड तथा कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड अव आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के अधिकृत प्राधिकारी ने भौतिक कब्जा किया है, कॉलम (iv) के अनुसार कर्जदार(रों) तथा सह-कर्जदार(रों) से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड, पूर्व का आईडीएफसी बैंक (इससे पूर्व कैपिटल फर्स्ट होम फाइनेंस लिमिटेड तथा कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड) के बकाया राशि की वसूली के लिए नीचे वर्णित के अनुसार 31.07.2023 को "जहाँ है जैसा है", "जो है यहाँ है" तथा "जो कुछ भी है वहाँ है" के आधार पर विक्री की जायेगी।

विक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की वेबसाइट अर्थात <https://idfcfirstbank.auctiontiger.net/EPROC> का सन्दर्भ लें।

नीलामी का विवरण

क्र. सं.	मांग सूचना सं.	मांग सूचना तथा राशि	ऋण	कर्जदार(रों) तथा सह-कर्जदार(रों) के नाम	सम्पत्ति का पता	आरक्षित मूल्य राशि	इंग्रैडमी राशि	इंग्रैडमी तथा दस्तावेज (ऑनलाइन) जमा करने की तिथि तक, पूर्व	नीलामी का तिथि एवं समय	सम्पत्ति की निरीक्षण की तिथि एवं समय	अधिकृत प्राधिकारी का विवरण
1	14020057	रु. 11,00,109.58/- तिथि 13.04.2021 तक	रु. 11,00,109.58/- तिथि 13.04.2021 तक	मनीष कुमार, राशि सुखविहार, मनीष कुमार एन.के. 3, इन्डियनगार्डन बक्स	संपत्ति प्लॉट नंबर एएसएफ -1, फ्रंट एलएचएस उन्नत पश्चिमी भाग का समस्त हिस्सा, छन के अधिकांश के साथ, दूसरी मंजिल, निर्मित प्लॉट एन.पी. 57, स्लॉक-बी, क्षेत्रफल 37.62 वर्ग मीटर, खसरा नं. 1210 में से, इयात एन्क्वैड हदबन्ध ग्राम लोनी तहसील और जिला- गाजियाबाद, (उ.प्र.) में स्थित है और सीमारे: पूर्व: प्लॉट नंबर बी- 72 पश्चिम: रोड 9 फीट चौड़ा, दक्षिण: प्लॉट नं. बी-56, उत्तर: प्लॉट नंबर बी-58	रु. 609,000/-	रु. 60,900/-	28.07.2023 को 11.00 बजे अप. तक	31.07.2023 को 11.00 बजे पूर्व. से 1.00 बजे अप.	24.07.2023 को 11.00 बजे पूर्व. से 4.00 बजे अप.	कार्तिक आहुजा सम्पर्क नम्बर- 7455846882 ई-मेल आईडी- kartik.ahuja@idfcbank.com
2	18952434	रु. 22,50,334.47/- तिथि 16.04.2021 तक	रु. 22,50,334.47/- तिथि 16.04.2021 तक	मोहम्मद इरफान मोहम्मद इमरान, साइमा बेगम, मोहम्मद इरफान मैसर्स रेयान स्टोर	सम्पत्ति एमआईजी प्लॉट नं. एएसएफ 03, द्वितीय तल का सम्पूर्ण भाग, छन के अधिकांश सहित, क्षेत्रफल माप 600 वर्ग फीट अर्थात 55.74 वर्ग फीट, प्लॉट नं. ए-6/4 पर निर्मित, आवासीय कॉलोनी डीएलएफ अंकर विहार, ग्राम लोनी, परगना एवं तहसील लोनी, जिला गाजियाबाद, उ.प्र. में स्थित तथा सीमारे निर्माणाधीन है। पूर्व: अन्य भूमि, पश्चिम: प्लॉट नं. ए-6/4 तथा 9 मीटर चौड़ी सड़क, उत्तर: प्लॉट नं. ए-6/5, दक्षिण: हेल्थ रोड	रु. 1,024,000/-	रु. 1,02,400/-	28.07.2023 को 11.00 बजे अप. तक	31.07.2023 को 11.00 बजे पूर्व. से 1.00 बजे अप.	24.07.2023 को 11.00 बजे पूर्व. से 4.00 बजे अप.	कार्तिक आहुजा सम्पर्क नम्बर- 7455846882 ई-मेल आईडी- kartik.ahuja@idfcbank.com

अस्वीकरण: कृपया ध्यान दें कि कथित सूचना केवल अचल सम्पत्ति की विक्री के लिए निर्मित की गयी है और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड को अचल सम्पत्ति पर उन्निष्ठ कितनी चल आस्तियों, यदि कोई हो, की विक्री का कोई अधिकार नहीं है।

तिथि: 13.07.2023
स्थान: गाजियाबाद

दिल्ली पुलिस
शुद्धि पत्र

यह दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा दिनांक 16.07.2023 को आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत के संबंध में 09.07.2023 को प्रकाशित विज्ञापन के संदर्भ में है। दिल्ली में मौसम परिवर्तन और बाढ़ की स्थिति को कारण 16.07.2023 को आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत को एतद्वारा स्थगित कर दिया गया है। अब विशेष लोक अदालत 30.07.2023 को पुनः निर्धारित की गई है और केवल 12.07.2023 को डाउनलोड किये गये चालान/नोटिस पर ही विचार किया जाएगा।
DP/9555/2023

PROTECTING INVESTING FINANCING ADVISING
आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: इंडियन रेयान कम्प्लेक्स, सेक्टर-6, गुजरान-362266
शाखा कार्यालय: आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, सी-23, शकुन एम्प्लोया, 2रा तल, अशोक मार्ग, सी-स्कैन, जयपुर, राजस्थान-302001

परिशिष्ट IV
[प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 का नियम 8(1) देखें]
कच्चा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्राथमिककरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूत हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 के 54) के अंतर्गत आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय: 23 तल, शकुन एम्प्लोया, सी-23, अशोक मार्ग, सी-स्कैन, जयपुर-302001 में है, के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रवर्तन शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोस्तारकर्ता ने मांग सूचना तिथि 28.04.2023 जारी कर ऋणकर्ता को सूचित किया है, श्रीमती कमल कुमारी जैन, मै. जैन एजेन्सी सर्वय, मै. शिव शक्ति ट्रेडिंग कम्पनी को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 1,34,47,061/- (रु. एक करोड़ चौतीस लाख सैतालीस हजार इकसठ मात्र) वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणकर्ता, इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्वारा ऋणकर्ता तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 13 जुलाई, 2023 को अधोस्तारकर्ता ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उक्त प्रवर्तन शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोस्तारकर्ता ने यहां नीचे वर्णित संपत्ति का संकेतिक कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणकर्ता को आम जनता को एतद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन संपत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय न करें, 1,34,47,061/- (रु. एक करोड़ चौतीस लाख सैतालीस हजार इकसठ मात्र) तथा उस पर व्याज के लिये आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणकर्ता का ध्यान प्रतिभूत परिसंपत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

"मकान सं. 44, डी-ब्लॉक, हिरन मंगी, सेक्टर 14, सबीन, उदयपुर, राजस्थान-313002" की सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा।
तिथि: 13.07.2022
स्थान: उदयपुर

प्राधिकृत अधिकारी
आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

IDFC FIRST Bank

पंजाब नैशनल बैंक Punjab National Bank
...the name you can BANK upon!
(A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)

मण्डल शास्त्रा केन्द्र, नोएडा, एसएच-12, प्रथम तल, गामा शॉपिंग सेक्टर-गामा-1, ग्रेटर नोएडा-201308, जिला गौतम बुद्ध नगर, फोन : 0120-2322667, ई-मेल : cs8290@pnb.co.in

अचल सम्पत्तियों की ई-नीलामी हेतु विक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस, आम जनता को और विशेष रूप से कर्जदार और गारंटरों को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधन / प्रभारित हैं, का रचनात्मक / भौतिक / सांकेतिक कब्जा प्रतिभूत लेनदार पंजाब नैशनल बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर बेचा जाएगा। बकाया राशि की वसूली, कर्जदार(रों) और गारंटर(रों), आरक्षित मूल्य और धरोहर राशि का विवरण नीचे दी गई तालिका के अनुसार प्रच्युत परिसंपत्तियों की विक्री की अनुसूची

क्र. सं.	शाखा का नाम खाते का नाम कर्जदार/गारंटरों खाते का नाम एवं पता	सरफासी अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना की तिथि		अचल सम्पत्तियों का विवरण - बंधन/स्वामी के नाम (सम्पत्तियों के बंधककर्ता)	आरक्षित मूल्य (लाख रु. में) ईंग्रैडमी बोली वृद्धि राशि	नीलामी की तिथि एवं समय	प्रतिभूति लेनदार के संज्ञान में ऋण शर्तों का विवरण और प्राधिकृत अधिकारी का नाम
		दिनांक 30.06.2023 तक बकाया राशि	सरफासी अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के अंतर्गत कब्जा की तिथि				
1	रोजा याक़ुबपुर मनीष अग्रवाल पुत्र बनवारी लाल, (454400NC00002040, 454400NC00002059, 4544009900000427), मनीष अग्रवाल, 1) प्लॉट नं. एफएफ1, प्रथम तल, प्लॉट नं. एएसए-1, (रैयान कुंज), सेक्टर-16, जीएम्पी शाल्सी नगर, गाजियाबाद, यू.पी. 2) मकान नं. 43 सेक्टर 16बी बसुंवा गाजियाबाद यूपी 201012	A) 13.01.2023 B) रु. 14972502/- + भविष्य का ब्याज एवं प्रभार इत्यादि C) 20.05.2023 D) सांकेतिक	रु. 11,00,109.58/- तिथि 13.04.2021 तक	प्लॉट नं. एफएफ1, प्रथम तल (सामने की ओर) बिना छत के अधिकार के, प्लॉट नं. एएसए-1, (रैयान कुंज) रिहायशी कॉलोनी, सेक्टर-16, जीएम्पी शाल्सी नगर, परगना डासन, गाजियाबाद, यू.पी. में स्थित, क्षेत्रफल 241.54 वर्ग मी. यह सम्पत्ति मनीष अग्रवाल पुत्र बनवारी लाल के नाम पर है।	रु. 88,40,000/- रु. 8,84,000/- 21-08-2023 रु. 10,00,00/-	22-08-2023 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे	ज्ञात नहीं / श्री दर्शन लाल मल्ला मो. 9560735577
2	रोजा याक़ुबपुर राम कुबेर यादव पुत्र श्री राम लखन यादव एवं श्रीमती सिंगारी देवी पत्नी राम कुबेर यादव 454400NC00001582 उधारकर्ता: राम कुबेर यादव 1) 489 ए प्रथम तल, इंडब्ल्यूएस ब्लॉक बी ब्रिज विहार कॉलोनी, सेक्टर-8 टीएचए गाजियाबाद यूपी 2) 489 (जीएफ) ब्रिज विहार चंदर नगर गाजियाबाद यूपी 201010 सह-उधारकर्ता: श्रीमती सिंगारी देवी पत्नी राम कुबेर यादव, 1) 489 ए फर्स्ट फ्लोर, इंडब्ल्यूएस ब्लॉक बी ब्रिज विहार कॉलोनी सेक्टर-8 टीएचए गाजियाबाद यूपी 2) 489 उबल स्टोरी ब्रिज विहार गाजियाबाद गारंटर: शारदा नन्द मिश्रा 1) ए-66 रामपुरी सूर्य नगर, गाजियाबाद यू.पी. 201011	A) 12.01.2023 B) रु. 2010753 + भविष्य का ब्याज एवं प्रभार इत्यादि C) 20.05.2023 D) सांकेतिक	रु. 11,00,109.58/- तिथि 13.04.2021 तक	बी-489ए (बिना छत के अधिकार के), प्रथम तल, इंडब्ल्यूएस ब्लॉक बी, ब्रिज विहार, कॉलोनी, सेक्टर-8, टीएचए, गाजियाबाद, यू.पी. में स्थित, क्षेत्रफल 19.184 वर्ग मी. यह सम्पत्ति श्रीमती सिंगारी देवी उर्फ श्रुंगारी देवी पत्नी राम कुबेर यादव के नाम पर है।	रु. 15,30,152/- रु. 1,53,016/- 21-08-2023 रु. 10,00,00/-	22-08-2023 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे	ज्ञात नहीं / श्री दर्शन लाल मल्ला मो. 9560735577
3	शाखा: सेक्टर 33 नोएडा मैसर्स विशाल एजेंसी श्रीमती सुधा शर्मा पत्नी श्री विजय कुमार शर्मा (मालिक) (1483250000453, 1483300002011, 1483300001922, 1483300001861 148320RF00000015) श्रीमती सुधा शर्मा 1) प्लॉट नं. 148बी, द्वितीय तल, इंडब्ल्यूएस ब्लॉक एच, सेक्टर 11, प्रताप विहार जीएम्पी गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, 2) सी/ओ नैकपाल त्वागी जीटी-68 सेक्टर-70, नोएडा, यू. पी. 201301 गारंटर: श्री विजय कुमार शर्मा 1) प्लॉट नं. 148बी, द्वितीय तल, इंडब्ल्यूएस ब्लॉक एच, सेक्टर 11, प्रताप विहार जीएम्पी गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश	A) 25.01.2023 B) रु. 1087505 + भविष्य का ब्याज एवं प्रभार इत्यादि C) 14.04.2023 D) सांकेतिक	रु. 11,00,109.58/- तिथि 13.04.2021 तक	प्लॉट नं. 148 बी, द्वितीय तल, इंडब्ल्यूएस (टी/एस) बिना छत के अधिकार के, ब्लॉक एच, सेक्टर-11, प्रताप विहार जीएम्पी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित, क्षेत्रफल 17.87 वर्ग मी. यह सम्पत्ति श्रीमती सुधा शर्मा पत्नी विजय कुमार के नाम पर है।	रु. 6,90,000/- रु. 69,000/- 21-08-2023 रु. 10,00,00/-	22-08-2023 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे	ज्ञात नहीं / श्री दर्शन लाल मल्ला मो. 9560735577

ई-नीलामी विक्री के संश्लेष नियम एवं शर्तें: (1) विक्री, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 में वर्णित नियमों एवं शर्तों के अधीन होगी। (2) सम्पत्तियों को "जो है जहाँ है", "जैसी है जो कुछ भी है" एवं "यद्यपि रहित आधार पर" बेचा जा रहा है। (3) उपर वर्णित अनुसूची में विनिर्दिष्ट सुरक्षित परिसंपत्तियों का विवरण, प्राधिकृत अधिकारी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार दर्शाई गई है, किंतु प्राधिकृत अधिकारी इस उद्घोषणा में किसी त्रुटि, गलत भयान या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा। (4) नीलामी ई-नीलामी प्लेटफॉर्म वेबसाइट <https://www.mstccommerce.com> के माध्यम से उन्नत वित्तीय दिनांकों को आयोजित किया जाएगा। (5) अधिक विवरण तथा सम्पूर्ण नियमों व शर्तों के लिए कृपया निम्नलिखित वेबसाइट्स: www.ibapi.in, www.mstccommerce.com, <https://eprocure.gov.in/publish/app>, देखें।

सरफासी अधिनियम 2002 के नियम 8(6) के अंतर्गत विक्री सूचना
प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक
दिनांक: 14-07-2023, स्थान: ग्रेटर नोएडा

एपिस इंडिया लिमिटेड
(CIN: L51900DL1983PLC164048)
पंजीकृत कार्यालय: 18/32, पूर्वी पटेल नगर, नई दिल्ली-110008
ई-मेल: mail@apisindia.com, वेबसाइट: www.apisindia.com
फोन: 011-4320 6650, फैक्स: 011-2571 3631

पोस्टल बेटे की सूचना

कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और नियम 22 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 108 और धारा 110 (किसी भी वैधानिक संशोधनों) या उसके पूर्व: अधिनियम (जोने सहित) तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एसीए) द्वारा जारी प्रासंगिक परिपत्रों (इसके बाद सामूहिक रूप से एमसीए स्कूलर संदर्भित) के साथ पठित और सेबी (सूचीबद्धता अधिनियम एवं प्रकटन अधिनियम, 2015 के अधिनियम 44 तथा इंडस्ट्रियल ऑफ कम्पनी-सेक्टर) के अधिनियम द्वारा साधारण बेटक पर संचायी मान्यता (एएसए-2) एवं अन्य पुराने कानूनों, नियमों तथा विनियमों (तत्काल समय में लागू किसी विधि संशोधनों या अधिनियमों तथा पुराने कानूनों के अनुसार पुराने धारा एपिस इंडिया लिमिटेड ("कम्पनी") के सदस्यों को सूचित किया जाता है कि पोस्टल बेटे की सूचना में उल्लिखित प्रस्ताव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग (ई-वोटिंग) के माध्यम से पोस्टल बेटे के सधन द्वारा अनुमोदन हेतु कम्पनी के सदस्यों द्वारा विचारार्थ प्रस्तावित है।

एमसीए परिपत्रों के अनुसार, कम्पनी ने पोस्टल बेटे नोटिस गृहकार, 06 जुलाई 2023 को व्याख्यात्मक विवरण के साथ बुकावरा, 14 जुलाई 2023 को केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन सभी सदस्यों के साथ भेजने का काम पूरा कर दिया है, जिसके नाम शुकवार, 07 जुलाई 2023 (कट-ऑफ तिथि) तक कम्पनी के सदस्यों के रजिस्ट्रार/डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए सदस्य/सामग्री स्वामी की सूची में दर्ज हैं और जिसके ई-मेल पते कम्पनी या डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं। पोस्टल बेटे नोटिस कम्पनी की वेबसाइट